कर्मचारी भविष्य निधि संगठन



Employees' Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) (Ministry of Labour & Employment, Govt. Of India) मुख्य कार्यालय / Head Office

भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110 066. Bhavishya Nidhi Bhawan, 14-Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066 www.epfindia.gov.in www.epfindia.nic.in

Telephone: 011-26713254 Fax: 011-26166609 Email: acc.fa.imc@epfindia.gov.in

No: Manual/Amendment/2011/Pt

Date: 21 AUG 2017

To

All Addl. CPFC (HQ/Zone), Regional P.F. Commissioners-incharge of Regional Offices.

Sub: Composite Claim Form for Death Case to replace erstwhile Form No. 20,10-D & 5-IF - Revised Claim Form thereof

Ref: HO circular No. Manual/Amendment/2011/163 dated 03.03.2017 (placed on EPFO website at Sl. No. 675 'Office order/Circulars' for the year 2016-17).

Sir.

The Central Provident Fund Commissioner vide order dated 03.03.2017 had introduced Composite Claim Form for Death case by replacing erstwhile claim Form Nos. 20, 10-D and 5-IF with a view to simplify the submission of claim forms by the subscribers.

2. Based on various suggestions, the Composite Claim Form for Death cases has been reviewed and accordingly a revised Composite Claim Form for death cases, approved by CPFC, is attached herewith. This claim form shall come into force from the date of issue of this circular.

(This issues with the approval of FA&CAO)

Yours faithfully,

Encl: As above

(Udita Chowdhary) Addl. CPFC (F&A)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

मृत्यु मामने में कम्पोजिट दावा प्रपत्र Composite Claim Form in Death Cases

म	T	ΙĘ	Ħ	न	
M		hii	0	N	0

रोबाइन न.	
Mobile No.	

www.epfindia.gov.in

प्रपब -20 (अविष्य निधि भुगतान)/ प्रपब 10-डी (पॅश्तन)/प्रपब -5आईएक (ईडीएसआई) [Form-20 (PF Payment)/Form-10-D (Pension)/ Form - 5 IF (EDLI)]

1		(i) भविष्य निधि/		(ii) বঁহান/ Pension			(iii) बीमा (ईडी	
-	Tick whichever is/are applicable	Provident Fund ())	पेंशन दावा का प्रकार/	Type of Pensi	on claim:	Insurance El	DLI] ()
2	मृतक सदस्य का नाम (बड़े शब्दों में):							
_	Name of the deceased member (in (a) पिता का नाम / Father's Name :	CAPITAL letters)		a)			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
3	(a) पिता का नाम / Father's Name : (b) पति/पत्नी का नाम/ Spouse's Name :			-				
-			-	b)				
4	मृतक सदस्य की वैवाहिक स्थिति / Marital status of deceased member							
_		पनका औ			-			
	a) मृतक सदस्य का आधार नंबर (यदि उपलब्ध हो) Aadhar Number of the deceased member (if available)							
5	Aadhar Number of the deceased member (if available) b) যুত্তব্য, / Universal Account Number (UAN)							
,	c) अविष्य निधि खाता संख्या (यदि यु.ए.एन. उपलब्ध नहीं है) / PF Account							
	Number (in case UAN not available)	. 34464 461 6) / 11 /	CCOUNT					
5	सेवा छोड़ने की तिथि/ Date of Leaving se	ervice					-	
	a)Whether Scheme Certificate has	/No)					*	
	क्या स्कीम प्रमाणपत्र जारी किया गया है	(हां/नहीं)	,,,,,,					
	b)If Yes, Number of Scheme Cer	uncate						
	यदि हां, स्कीम प्रमाणपत्र की संख्या							
	c)Scheme Certificate issuing office							
	स्कीम प्रमाणपत्र जारी करने वाले कार्यालय	का नाम व पता						
	गैर अंशदायी सेवा की अवधि (वर्ष/माह/दिन) /	Period of Non-Contr	ibutory					
	service (Year/Month/Days) - (To be	filled by the employe	er)					
	सदस्य की मृत्यु की तिथि। Date of death	of the member						
0	क्या सदस्य की मृत्यु सेवाकाल के दौरान हुई	थी (हां/नहीं)/						
	Whether the member had died while	e in service(Yes / No)						
भ	विष्य निधि पेंशन तथा बीमा (ईडीएलआई) हेतु दावाकर्ता का विव	रण / CLAIMAN	T'S DETAILS FOR	PROVIDENT	FUND, PENSI	ON AND INSU	RANCE (EDLI)
	दावाकर्ता अव्यस्क । नामिति । कानूनी उत्तराधि	कारी/ वर्तमान परिवार के	सदस्य का विवरण	जिनके दवारा दावा प्र	स्तृत किया गया	青 /		
	*Particulars of the claimant/minor/ne			-	-		ubmitted	
						वैवाहिक		ionship with
	इत्.स.	ता/Father's /		िंग	जन्म तिथि	adilipa	1744 110101	orisinp with
			भागार जंतर/	िया		For For	महस्य के	
	नाम/ Name पा	ति-पत्मी का नाम/	आधार नंबर/	तिंग Gender	Date of	स्थिति	सदस्य के	अभिभावक
	S.N. FIR/ Name 4	ति-पत्नी का नाम/ pouse's Name	आधार नंबर/ Aadhar Numb		Date of Birth	Marital	साथ	अभिभावक Guardian
1	S.N. नाम/ Name पा							
1	S.N. FIR/ Name 4					Marital	साथ	
1	S.N. বাম/ Name বা					Marital	साथ	
1	S.N. नाम/ Name पा					Marital	साथ	
1	S.N. नाम/ Name पा	pouse's Name	Aadhar Numb	er Gender	Birth	Marital Status	साथ Member	Guardian
1	S.N. si ii iii iii v v * In case of more than five family m	pouse's Name	Aadhar Numb	er Gender	Birth	Marital Status	साय Member	Guardian
1	S.N. नाम/ Name पा	pouse's Name	Aadhar Numb	er Gender	Birth	Marital Status	साय Member	Guardian
1	S.N. si ii iii iii v v * In case of more than five family m	pouse's Name	Aadhar Numb of family membe ते का विवरण B	er Gender ers may be furnis ank Account de	Birth	Marital Status	साय Member	Guardian
1	S.N. नाम/ Name पा S.N. S i ii iii iiv v * In case of more than five family m	pouse's Name nembers, the details o के भुगतान हेतु बैंक खा	Aadhar Numb of family membe ते का विवरण B t – I	Gender Gender ers may be furnis eank Account de	Birth hed in a sepa	Marital Status	साय Member July attested b	Guardian y the employer
1	S.N. नाम/ Name पा S.N. S i ii iii iii iv v * In case of more than five family m अविष्य निधि तथा ईडीएलआई (बीमा) व	pouse's Name nembers, the details o के भुगतान हेतु बैंक खा	Aadhar Numb of family membe ते का विवरण B t – I	Gender Gender ers may be furnis eank Account de	Birth hed in a sepa	Marital Status	साय Member July attested b	Guardian y the employer
	S.N. नाम/ Name पा i ii iii iiv v * In case of more than five family m भविष्य निधि तथा ईडीयलआई (बीमा) व	pouse's Name nembers, the details o के भुगतान हेतु बैंक खा	Aadhar Numb of family membe ते का विवरण B t – I	Gender Gender ers may be furnis eank Account de	Birth hed in a sepa	Marital Status	साय Member July attested b	Guardian y the employer
	S.N. ii ii iii iv v * In case of more than five family m अविच्य निधि तथा ईडीपलआई (बीमा) व अगुरातान हेतु बैंक खाते का विवरण Bank Account details for payment नाम Name बचत बैंक खाता संख्या	pouse's Name nembers, the details o के भुगतान हेतु बैंक खा	Aadhar Numb of family membe ते का विवरण B t – I	Gender Gender ers may be furnis eank Account de	Birth hed in a sepa	Marital Status	साय Member July attested b	Guardian y the employer
	S.N. नाम/ Name पा S.N. S i ii iii iii iv v * In case of more than five family m #विष्य निधि तथा ईडीपलआई (बीमा) वे श्रुगतान हेतु बैंक खाते का विवरण Bank Account details for payment नाम Name	pouse's Name nembers, the details o के भुगतान हेतु बैंक खा	Aadhar Numb of family membe ते का विवरण B t – I	Gender Gender ers may be furnis eank Account de	Birth hed in a sepa	Marital Status	साय Member July attested b	Guardian y the employer
2	S.N. i ii iii iii iv v * In case of more than five family m अविष्य निधि तथा ईडीपलआई (बीमा) वे अगतान हेतु बँक खाते का विवरण Bank Account details for payment नाम Name बचत बँक खाता संख्या Saving Bank Account No.	pouse's Name nembers, the details o के भुगतान हेतु बैंक खा	Aadhar Numb of family membe ते का विवरण B t – I	Gender Gender ers may be furnis eank Account de	Birth hed in a sepa	Marital Status	साय Member July attested b	Guardian y the employer
	S.N. i ii iii iii iv v * In case of more than five family m अविष्य निधि तथा ईडोपलआई (बीमा) वे अुगतान हेतु बँक खाते का विवरण Bank Account details for payment नाम Name बचत बँक खाता संख्या Saving Bank Account No.	pouse's Name nembers, the details o के भुगतान हेतु बैंक खा	Aadhar Numb of family membe ते का विवरण B t – I	Gender Gender ers may be furnis eank Account de	Birth hed in a sepa	Marital Status	साय Member July attested b	Guardian y the employer
	S.N. i ii iii iv v * In case of more than five family m अविच्य निधि तथा ईडीपलआई (बीमा) व अगुतान हेतु बैंक खाते का विवरण Bank Account details for payment नाम Name बच्त बैंक खाता संख्या Saving Bank Account No. बैंक का नाम व पता Name & address of the Bank	pouse's Name nembers, the details o के भुगतान हेतु बैंक खा	Aadhar Numb of family membe ते का विवरण B t – I	Gender Gender ers may be furnis eank Account de	Birth hed in a sepa	Marital Status	साय Member July attested b	Guardian y the employer
	S.N. i iii iii iv v * In case of more than five family m * Afeच्य निधि तथा ईडीपलआई (बीमा) वं अगुरातान हेतु बँक खाते का विवरण Bank Account details for payment नाम Name वयत बँक खाता संख्या Saving Bank Account No. बँक का नाम व पता Name & address of the Bank आई एक एस कोड IFS Code of Bank	pouse's Name members, the details o के भुगतान हेतु बैंक खा Claiman दावाकर्ता	Aadhar Numb of family membe ते का विवरण B it — I	ers may be furnis ank Account de	Birth hed in a sepa etails for pay imant — II शकर्ता – II	Marital Status	साय Member July attested b	Guardian y the employer
	S.N. i iii iii iv v * In case of more than five family m अविच्य निधि तथा ईडीपलआई (बीमा) वं अगुरातान हेतु बँक खाते का विवरण Bank Account details for payment नाम Name बयत बँक खाता संख्या Saving Bank Account No. बँक का नाम व पता Name & address of the Bank आई एफ एस कोड IFS Code of Bank	pouse's Name nembers, the details o के भुगतान हेतु बैंक खा	Aadhar Numb of family membe ते का विवरण B it — I	ers may be furnis ank Account de	Birth hed in a sepa etails for pay imant — II ाकर्ता – II	Marital Status	साय Member July attested b & EDLI: Claima द्वावाकत	Guardian y the employer
	S.N. i ii iii iv v * In case of more than five family m अविच्य निधि तथा ईडीएलआई (बीमा) व अगतान हेतु बँक खाते का विवरण Bank Account details for payment नाम Name बयत बँक खाता संख्या Saving Bank Account No. बँक का नाम व पता Name & address of the Bank आई एफ एस कोड IFS Code of Bank पैश	pouse's Name nembers, the details o के भुगतान हेतु बैंक खा Claiman दावाकर्ता	Aadhar Numb of family membe ते का विवरण B it — I	ers may be furnis ank Account de	Birth hed in a sepa etails for pay imant –II sाकर्ता – II	Marital Status rate sheet, d	साय Member July attested b & EDLI: Claima द्वावाकत	Guardian y the employer ant —III र्ज - III
	S.N. i iii iii iv v * In case of more than five family m अविच्य निधि तथा ईडीपलआई (बीमा) वं अगुरातान हेतु बँक खाते का विवरण Bank Account details for payment नाम Name बयत बँक खाता संख्या Saving Bank Account No. बँक का नाम व पता Name & address of the Bank आई एफ एस कोड IFS Code of Bank	pouse's Name nembers, the details o के भुगतान हेतु बैंक खा Claiman दावाकर्ती न हेतु बैंक खाता विवर Claimant — I	Aadhar Numb of family membe ते का विवरण B it — I	ers may be furnis ank Account de Cla are	Birth hed in a sepa etails for pay imant –II sाकर्ता – II	Marital Status rate sheet, of present of PF	साय Member July attested b & EDLI: Claima द्वावाकत	Guardian y the employer ant – III fi – III
	S.N. i ii iii iv v * In case of more than five family m * In case of more than five family m अगतान हेतु बँक खाते का विवरण Bank Account details for payment नाम Name बयत बँक खाता संख्या Saving Bank Account No. बँक का नाम व पता Name & address of the Bank आई एफ एस कोड IFS Code of Bank पैश	pouse's Name nembers, the details o के भुगतान हेतु बैंक खा Claiman दावाकर्ती न हेतु बैंक खाता विवर Claimant — I	Aadhar Numb of family membe ते का विवरण B it — I	ers may be furnis ank Account de Cla are	Birth hed in a sepa etails for pay imant –II sाकर्ता – II	Marital Status rate sheet, of present of PF	साय Member July attested b & EDLI: Claima द्वावाकत	Guardian y the employer ant – III fi – III
	S.N. i iii iii iv v * In case of more than five family m श्रितात हेतु बैंक खाते का विवरण Bank Account details for payment नाम Name बचत बैंक खाता संख्या Saving Bank Account No. बैंक का नाम व पता Name & address of the Bank आई एफ एस कोड IFS Code of Bank पैश श्रुगतान हेतु बैंक खाते का विवरण Bank Account details for payment नाम Name	pouse's Name nembers, the details o के भुगतान हेतु बैंक खा Claiman दावाकर्ती न हेतु बैंक खाता विवर Claimant — I	Aadhar Numb of family membe ते का विवरण B it — I	ers may be furnis ank Account de Cla are	Birth hed in a sepa etails for pay imant –II sाकर्ता – II	Marital Status rate sheet, of present of PF	साय Member July attested b & EDLI: Claima द्वावाकत	Guardian y the employer ant –III
2	S.N. i iii iii iv v * In case of more than five family m * In case of more than five family m श्रितान हेतु बैंक खाते का विवरण Bank Account details for payment नाम Name बचत बैंक खाता संख्या Saving Bank Account No. बैंक का नाम व पता Name & address of the Bank आई एफ एस कोड IFS Code of Bank पैश श्रुगतान हेतु बैंक खाते का विवरण Bank Account details for payment नाम Name बचत बैंक खाता संख्या	pouse's Name nembers, the details o के भुगतान हेतु बैंक खा Claiman दावाकर्ती न हेतु बैंक खाता विवर Claimant — I	Aadhar Numb of family membe ते का विवरण B it — I	ers may be furnis ank Account de Cla are	Birth hed in a sepa etails for pay imant –II sाकर्ता – II	Marital Status rate sheet, of present of PF	साय Member July attested b & EDLI: Claima द्वावाकत	Guardian y the employer ant –III
2	S.N. i iii iii iv v * In case of more than five family m श्रिताल हेतु बँक खाते का विवरण Bank Account details for payment नाम Name बयत बँक खाता संख्या Saving Bank Account No. बँक का नाम व पता Name & address of the Bank आई एफ एस कोड IFS Code of Bank पैश श्रुगतान हेतु बँक खाते का विवरण Bank Account details for payment नाम Name बयत बँक खाता संख्या Saving Bank Account No.	pouse's Name nembers, the details o के भुगतान हेतु बैंक खा Claiman दावाकर्ती न हेतु बैंक खाता विवर Claimant — I	Aadhar Numb of family membe ते का विवरण B it — I	ers may be furnis ank Account de Cla are	Birth hed in a sepa etails for pay imant –II sाकर्ता – II	Marital Status rate sheet, of present of PF	साय Member July attested b & EDLI: Claima द्वावाकत	Guardian y the employer ant –III
2	S.N. i ii iii iii iii iii iii iii iii ii	pouse's Name nembers, the details o के भुगतान हेतु बैंक खा Claiman दावाकर्ती न हेतु बैंक खाता विवर Claimant — I	Aadhar Numb of family membe ते का विवरण B it — I	ers may be furnis ank Account de Cla are	Birth hed in a sepa etails for pay imant –II sाकर्ता – II	Marital Status rate sheet, of present of PF	साय Member July attested b & EDLI: Claima द्वावाकत	Guardian y the employer ant –III
	S.N. ii iii iii iii iii iii iv v * In case of more than five family m #विष्य निधि तथा ईडीपलआई (बीमा) व #शुगतान हेतु बँक खाते का विवरण Bank Account details for payment नाम Name बचत बँक खाता संख्या Saving Bank Account No. बैंक का नाम व पता Name & address of the Bank आई एफ एस कोड IFS Code of Bank पैश #गुगतान हेतु बँक खाते का विवरण Bank Account details for payment नाम Name बचत बँक खाता संख्या Saving Bank Account No. बैंक का नाम व पता Name & address of the Bank	pouse's Name nembers, the details o के भुगतान हेतु बैंक खा Claiman दावाकर्ती न हेतु बैंक खाता विवर Claimant — I	Aadhar Numb of family membe ते का विवरण B it — I	ers may be furnis ank Account de Cla are	Birth hed in a sepa etails for pay imant –II sाकर्ता – II	Marital Status rate sheet, of present of PF	साय Member July attested b & EDLI: Claima द्वावाकत	Guardian y the employer ant –III
2	S.N. i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	pouse's Name nembers, the details o के भुगतान हेतु बैंक खा Claiman दावाकर्ती न हेतु बैंक खाता विवर Claimant — I	Aadhar Numb of family membe ते का विवरण B it — I	ers may be furnis ank Account de Cla are	Birth hed in a sepa etails for pay imant –II sाकर्ता – II	Marital Status rate sheet, of present of PF	साय Member July attested b & EDLI: Claima द्वावाकत	Guardian y the employer ant –III
2	S.N. i ii iii iii iii iii iii iii iii iii	pouse's Name nembers, the details o के भुगतान हेतु बैंक खा Claiman दावाकर्ती न हेतु बैंक खाता विवर Claimant — I	Aadhar Numb of family membe ते का विवरण B it — I	ers may be furnis ank Account de Cla are	Birth hed in a sepa etails for pay imant –II sाकर्ता – II	Marital Status rate sheet, of present of PF	साय Member July attested b & EDLI: Claima द्वावाकत	Guardian y the employer ant –III
2	S.N. i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	pouse's Name nembers, the details o के भुगतान हेतु बैंक खा Claiman दावाकर्ती न हेतु बैंक खाता विवर Claimant — I	Aadhar Numb of family membe ते का विवरण B it — I	ers may be furnis ank Account de Cla are	Birth hed in a sepa etails for pay imant –II sाकर्ता – II	Marital Status rate sheet, of present of PF	साय Member July attested b & EDLI: Claima द्वावाकत	Guardian y the employer ant –III

- Certified that the particulars are true to the best of my knowledge. दावाकर्ता का हस्ताक्षर

Claimant's signature

नाम Name:

नियोक्ता का हस्ताक्षर Employer's Signature नियोक्ता का पदनाम तथा महर Designation & Seal of Employer

संलग्नक/Enclosures

- i) मृत्यु प्रमाणपत्र/ Death Certificate
- ii) सभी दावाकर्ताओं का संयुक्त फोटो / Joint photograph of all the claimants
- iii) दावा करने वाले बच्चों के जन्म का प्रमाणपत्र / Date of Birth certificate of children claiming pension
- iv) योजना प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) Scheme Certificate (if applicable)
- v) बैंक खाते के सत्यापन हेतु एक रद चैक /पासबुक के पहले पेज की अभिग्रमाणित प्रतिलिपि/ For verification of bank accounts, a copy of cancelled cheque or attested copy of first page of bank Pass Book.